

Num

Chapter 28

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
और-बोला यहोवा से मूसा कहते-हुए
[H1696](#) [H3068](#) [H0413](#) [H4872](#) [H0559](#)

तब यहोवा ने मूसा से बात की। उसने कहा,

2 וְצֹא אֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אֶת-קַרְבְּנֵי לַחֲמִי לְאִשֵּׁי רִיחַ
आज्ञा-दे को और-कह इस्राएल पुत्रों-के को सुगंध
[H6680](#) [H0853](#) [H3478](#) [H0559](#) [H0413](#) [H0853](#) [H3899](#) [H0801](#) [H7381](#)
3 נִיחֻחֵי טוֹחֵי סוּחָה וְתִשְׁמְרוּ לִי בְּמוֹעֵדוֹ:
सुखदायक-मेरी ध्यान-रखो चढ़ाने-के-लिए मुझे उसके-समय-पर
[H5207](#) [H8104](#) [H7126](#) [H4150](#)

“इस्राएल के लोगों को यह आदेश दो। उनसे कहो कि वे ठीक समय पर निश्चयपूर्वक मुझे विशेष भेंट चढ़ाएं। उनसे कहो कि वे अन्नबलि और होमबलि चढ़ाएं। यहोवा उन होमबलियों की सुगन्ध पसन्द करता है।

3 וְאָמַרְתָּ לָהֶם וְיָדָהּ אֲשֶׁר תִּזְכְּרוּ
और-कह और-बलि यह उनसे
[H0853](#) [H2088](#) [H0801](#)
4 וְיָדָהּ אֲשֶׁר תִּזְכְּרוּ
और-कह यह उनसे
[H0853](#) [H2088](#) [H0801](#)
5 וְיָדָהּ אֲשֶׁר תִּזְכְּרוּ
और-कह यह उनसे
[H0853](#) [H2088](#) [H0801](#)

इन होमबलियों को उन्हें यहोवा को चढ़ाना ही चाहिए। उन्हें दोषरहित एक वर्ष के दो मेढ़े नित्य भेंट के रूप में चढ़ाना चाहिए।

4 אֶת-הַכֶּבֶשׂ אֶחָד תֹּעַשׂה בַּבֹּקֶר וְאֶת-הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תֹעַשׂה בֵּין הָעֶרְבִים:
को मेम्ना एक तू-करेगा सुबह-में और-को मेम्ना तू-करेगा
[H0853](#) [H3532](#) [H1242](#) [H0853](#) [H3532](#) [H8145](#) [H0996](#) [H6153](#)

मेढ़ों में से एक को सवेरे चढ़ाओ और दूसरे मेढ़े को संध्या के समय।

5 וְעֵשֶׂת רֵיחַ וְעֵשֶׂת רֵיחַ וְעֵשֶׂת רֵיחַ
और-दसवां-भाग और-दसवां-भाग और-दसवां-भाग
[H6224](#) [H0374](#) [H5560](#) [H4503](#) [H8081](#) [H3795](#) [H7243](#) [H1969](#)

इसके अतिरिक्त दो क्वार्ट अन्नबलि एक क्वार्ट जैतून के तेल के साथ मिला आटा दो।”

6 עֵלֶת הַתָּמִיד וְעֵלֶת הַשֶּׁמֶן
नित्य होमबलि नित्य होमबलि
[H8548](#) [H2022](#) [H5514](#) [H7381](#) [H5207](#) [H0801](#) [H3068](#)

(उन्होंने सीने पर्वत पर नित्य भेंट देनी आरम्भ की थी। यहोवा ने उन होमबलियों की सुगन्ध पसन्द की थी।)

7 וְנִסְכּוֹ רְבִיעֵת הָהִין וְנִסְכּוֹ לְכֶבֶשׂ הָאֶחָד מִמֶּנֶם
और-अर्घ-इसका और-अर्घ-इसका और-अर्घ-इसका
[H5262](#) [H7243](#) [H1969](#) [H3532](#) [H0259](#) [H6944](#) [H262](#) [H7941](#) [H3068](#)

लोगों को होमबलि के साथ पेय भेंट भी चढ़ानी चाहिए। उन्हें हर एक मेमने के साथ एक क्वार्ट दाखमधु देनी चाहिए। उस पेय भेंट को पवित्र स्थान में वेदी पर डालो। यह यहोवा को भेंट है।

תַּעֲשֶׂה	וּכְנֹסְבוֹ	הַבָּקָר	כַּמְנַחֵת	הָעֲרָבִים	בֵּין	תַּעֲשֶׂה	הַשְּׂנִי	הַכֶּבֶשׂ	וְאֵת	8
तू-करेगा	और-जैसे-अर्घ-इसका	सुबह-की	जैसे-अन्नबलि	संध्याओं-के	बीच	तू-करेगा	दूसरा	मेम्ना	और-को	
	H5262	H1242	H4503	H6153	H0996		H8145	H3532	H0853	

פ	לִיהוָה:	נִיחָח	רִיחַ	אֵשׁ
—	यहोवा-के-लिए	सुखदायक	सुगंध	अग्नि-बलि
	H3068	H5207	H7381	H0801

दूसरे मेढ़े की भेंट गोधूलि के समय चढ़ाओ। इसे सवेरे की भेंट की तरह चढ़ाओ। वैसे ही पेय भेंट भी चढ़ाओ। ये आग द्वारा दी गई भेंट होगी। इस की सुगन्ध यहोवा को प्रसन्न करेगी।

מְנַחָה	סֹלֶת	עֶשְׂרֹנִים	וּשְׁנֵי	תְּמִימִם	שָׁנָה	בְּנֵי	כֶּבֶשִׂים	שְׁנֵי	הַשֶּׁבֶת	וּבַיּוֹם	9
अन्नबलि	मैदा	दसवें-भाग	और-दो	निर्दोष	वर्ष-के	पुत्र	मेम्ने	दो	सब्त-के	और-दिन-में	
H4503	H5560	H6241	H8147	H8549	H8141		H3532	H8147	H7676	H3117	

וּכְנֹסְבוֹ:	בְּשֶׁמֶן	בְּלוּלָה
और-अर्घ-इसका	तेल-में	मिला-हुआ
H5262	H8081	

“शनिवार को, जो छुट्टी का दिन है, एक वर्ष के दोष रहित दो मेमने जैतून के तेल के साथ मिले चार क्वार्ट अच्छे आटे की अन्नबलि और पेय भेंट चढ़ाओ।

ס	וּכְנֹסְבוֹ:	הַתְּמִיד	עֹלֹת	עֹלֹת	בְּשֶׁבֶתָּ	שֶׁבֶת	עֹלֹת	10
—	और-अर्घ-इसका	नित्य-की	होमबलि	के-अतिरिक्त	प्रत्येक-सब्त-पर	सब्त-की	होमबलि	
	H5262	H8548			H7676	H7676		

यह छुट्टी के दिन की विशेष भेंट है। यह भेंट नियमित नित्य भेंट और पेय भेंट के अतिरिक्त है।”

אֶחָד	וְאֵילָן	שְׁנַיִם	בְּקָר	בְּנֵי	פָּרִים	לִיהוָה	עֹלָה	תִּקְרִיבוּ	חֲדָשֵׁיכֶם	וּבִרְאֵשֵׁי	11
एक	और-मेढ़ा	दो	गाय-के	पुत्र	बैल	यहोवा-को	होमबलि	तुम-चढ़ाओगे	महीनों-तुम्हारे	और-आरंभ-में	
H0259		H8147	H1241		H6499	H3068		H7126	H2320		

כֶּבֶשִׂים	בְּנֵי	שָׁנָה	שֶׁבַע	תְּמִימִם:
मेम्ने	पुत्र	वर्ष-के	सात	निर्दोष
H3532	H8141	H7651	H8549	

“हर एक महीने के प्रथम दिन तुम यहोवा को होमबलि चढ़ाओगे। यह भेंट दोष रहित दो बैलों, एक मेढ़ा और सात एक वर्ष के मेमनों की होगी।

וּשְׁלֹשָׁה	עֶשְׂרֹנִים	סֹלֶת	מְנַחָה	בְּלוּלָה	בְּשֶׁמֶן	לְפָר	הָאֶחָד	וּשְׁנֵי	עֶשְׂרֹנִים	סֹלֶת	12
और-तीन	दसवें-भाग	मैदा	अन्नबलि	मिला-हुआ	तेल-में	बैल-के-लिए	एक-के	और-दो	दसवें-भाग	मैदा	
H7969	H6241	H5560	H4503		H8081	H6499	H0259	H8147	H6241	H5560	

מְנַחָה	בְּלוּלָה	בְּשֶׁמֶן	לְאֵילָן	הָאֶחָד:
अन्नबलि	मिला-हुआ	तेल-में	मेढ़े-के-लिए	एक-के
H4503	H8081	H8081		H0259

हर एक बैल के साथ जैतून के तेल के साथ मिले छः क्वार्ट अच्छे आटे की अन्नबलि भी चढ़ाओ। हर एक मेढ़े के साथ जैतून के तेल के साथ मिले चार क्वार्ट अच्छे आटे की अन्नबलि भी चढ़ाओ।

וְעֶשְׂרֹן	עֶשְׂרֹן	סֹלֶת	מְנַחָה	בְּלוּלָה	בְּשֶׁמֶן	לְכֶבֶשׂ	הָאֶחָד	עֹלָה	רִיחַ	13
और-दसवां-भाग	दसवां-भाग	मैदा	अन्नबलि	मिला-हुआ	तेल-में	मेम्ने-के-लिए	एक-के	होमबलि	सुगंध	
H6241	H6241	H5560	H4503		H8081	H3532	H0259	H7381		

נִיחָח	אֵשׁ	לִיהוָה:
सुखदायक	अग्नि-बलि	यहोवा-के-लिए
H5207	H0801	H3068

हर एक मेमने के साथ जैतून के तेल के साथ मिले दो क्वार्ट अच्छे आटे की अन्नबलि भी चढ़ाओ। यह ऐसी होमबलि होगी जो यहोवा के लिए मधुर गन्ध होगी।

וּנְסָכֵיהֶם	חֲצִי	הַהַיּוֹן	יְהוּגָה	לְבָר	וּשְׁלִישִׁית	הַהַיּוֹן	לְאִיל	וּרְבִיעֵת	הַהַיּוֹן	14
और-अर्घ-इनके	आधा	हीन-का	होगा	बैल-के-लिए	और-तिहाई	हीन-का	मेढ़े-के-लिए	और-चौथाई	हीन-का	
H5262	H2677	H1969	H1961	H6499	H7992	H1969	H1969	H7243	H1969	

לְכַבֵּשׁ	יָן	זֹאת	עֲלֵת	חֹדֶשׁ	בְּחֹדְשׁוֹ	לְחֹדְשֵׁי	הַשָּׁנָה:		
मेम्ने-के-लिए	दाखमधु	यह	होमबलि	महीने-की	उसके-महीने-पर	महीनों-के-लिए	वर्ष-के		
H3532	H3196	H2063	H2320	H2320	H2320	H2320	H8141		

पेय भेंट में दो क्वार्ट दाखमधु हर एक बैल के साथ, एक चौथाई क्वार्ट दाखमधु हर एक मेढ़े के साथ और एक क्वार्ट दाखमधु हर एक मेम्ने के साथ होगी। यह होमबलि है जो वर्ष के हर एक महीने चढ़ाई जानी चाहिए।

וּשְׁעִיר	עֵיזִים	אֶחָד	לְחֻטָּאת	לִיהוּגָה	עַל-	עֲלֵת	הַתְּמִיד	יַעֲשֶׂה	15
और-बकरा	बकरियों-का	एक	पापबलि-के-लिए	यहोवा-को	के-अतिरिक्त	होमबलि	नित्य-की	किया-जाएगा	
	H5795	H0259	H3068	H3068		H8548	H8548		

וּנְסָכוֹ :
— और-अर्घ-इसका
[H5262](#)

नित्य दैनिक होमबलि और पेय भेंट के अतिरिक्त तुम्हें यहोवा को एक बकरा देना चाहिए। वह बकरा पापबलि होगा।

וּבְחֹדֶשׁ	הָרִאשׁוֹן	בְּאַרְבָּעָה	עֶשֶׂר	יּוֹם	לְחֹדֶשׁ	פֶּסַח	לִיהוּגָה:		16
और-महीने-में	पहले	चौदहवें	दस	दिन	महीने-के	फसह	यहोवा-के-लिए		
H2320	H7223	H0702	H6240	H3117	H2320	H6453	H3068		

“पहले महीने के चौदहवें दिन यहोवा के सम्मान में फसह पर्व होगा।

וּבְחֻמֹּשֶׁה	עֶשֶׂר	יּוֹם	לְחֹדֶשׁ	הַזֶּה	חֹג	שִׁבְעַת	יָמִים	מִצֹּת	יֵאָכֵל:	17
और-पंद्रहवें	दस	दिन	महीने-के	इस	पर्व	सात	दिन	अखमीरी-रोटी	खाई-जाएगी	
H2568	H6240	H3117	H2320	H2088	H2282	H7651	H3117	H4682	H0398	

उस महीने के पन्द्रहवें दिन अखमीरी रोटी की दावत आरम्भ होती है। यह पर्व सात दिन तक रहता है। तुम वही रोटी खा सकते हो जो अखमीरी हो।

בְּיוֹם	הָרִאשׁוֹן	מִקְרָא-	קָדֹשׁ	כָּל-	מְלֶאכֶת	עֲבֹדָה	לֹא	תַעֲשׂוּ:	18
में-दिन	पहले	पवित्र-सभा	पवित्र	कोई-भी	काम	सेवकाई-का	नहीं	तुम-करोगे	
H3117	H7223	H4744	H6944	H3605	H4399	H5656	H3808		

इस पर्व के पहले दिन तुम्हें विशेष बैठक बुलानी चाहिए। उस दिन तुम कोई काम नहीं करोगे।

וְהִקְרַבְתֶּם	אֵשֶׁה	עֲלָה	לִיהוּגָה	פָּרִים	בְּנֵי-	בָּקָר	שְׁנַיִם	וְאֵיל	אֶחָד	וּשְׁבַעָה	19
और-तुम-चढ़ाओगे	अग्नि-बलि	होमबलि	यहोवा-को	बैल	पुत्र	गाय-के	दो	और-मेढ़ा	एक	और-सात	
H7126	H0801	H3068	H6499	H1241	H8147	H1241	H8147	H259	H7651		

כְּבָשִׁים :
בְּנֵי :
שָׁנָה :
הַמִּיּוֹם :
יְהוּי :
לְכֶם :
मेम्ने
पुत्र
वर्ष-के
निर्दोष
होंगे
तुम्हारे-लिए
[H3532](#)
[H8141](#)
[H8549](#)
[H1961](#)

तुम यहोवा को होमबलि दोगे। यह होमबलि दोष रहित दो बैल, एक मेढ़ा और एक वर्ष के सात मेमनों की होगी।

וּמִנְחָתָם	סֹלֶת	בְּלוּלָה	בְּשֶׁמֶן	שְׁלֹשָׁה	עֶשְׂרִים	לְבָר	וּשְׁנַיִם	עֶשְׂרִינָם	לְאִיל	20
और-अन्नबलि-इनकी	मैदा	मिला-हुआ	तेल-में	तीन	दसवें-भाग	बैल-के-लिए	और-दो	दसवें-भाग	मेढ़े-के-लिए	
H4503	H5560	H8081	H7969	H6241	H6499	H8147	H6241	H6241	H1969	

תַעֲשׂוּ :
तुम-करोगे

हर एक बैल के साथ जैतून के तेल के साथ मिले हुए छः क्वार्ट अच्छे आटे। मेढ़े के साथ जैतून के तेल के साथ मिले हुए चार क्वार्ट अच्छे आटे और हर एक मेम्ने के साथ दो क्वार्ट जैतून के तेल के साथ मिले हुए आटे की अन्नबलि भी होगी।

21	עֶשְׂרֹן	עֶשְׂרֹן	תַּעֲשֶׂה	לְכַבֵּשׁ	הָאֶחָד	לְשִׁבְעַת	הַכִּבְּשִׁים:
	दसवां-भाग	दसवां-भाग	तू-करेगा	मेम्ने-के-लिए	एक-के	सात-के-लिए	मेम्नों-के
	H6241	H6241		H3532	H0259	H7651	H3532

हर एक बैल के साथ जैतून के तेल के साथ मिले हुए छः क्वार्ट अच्छे आटे। मेढ़े के साथ जैतून के तेल के साथ मिले हुए चार क्वार्ट अच्छ आटे और हर एक मेमने के साथ दो क्वार्ट जैतून के तेल के साथ मिले हुए आटे की अन्नबलि भी होगी।

22	וְשִׁעִיר	חַטָּאת	אֶחָד	לְכַפֵּר	עֲלֵיכֶם:
	और-बकरा	पापबलि	एक	प्रायश्चित-करने-को	तुम्हारे-लिए
					H0259

तुम्हें एक बकरा भी देना चाहिए। वह बकरा तुम्हारे लिए पापबलि होगा। यह तुम्हारे पापो को ढकेगा।

23	מִלְבָּד	עֹלֹת	הַבֶּקָר	אֲשֶׁר	לְעֹלֹת	הַתְּמִיד	תַּעֲשׂוּ	את-	אלה:
	के-अतिरिक्त	होमबलि	सुबह-की	जो	होमबलि-के-लिए	नित्य-की	तुम-करोगे	को	इन्हें
	H0905		H1242			H8548		H0853	H0428

तुम लोगों को वे भेंटें उन भेंटों के अतिरिक्त देनी चाहिए जो तुम हर एक सवेरे होमबलि के रूप में देते हो।

24	כֹּאֵלֶּה	תַּעֲשׂוּ	לְיוֹם	שִׁבְעַת	יָמִים	לַחֵם	אֵשׁ	רִיחַ-	גִּיחַח	לְיְהוָה
	इन-के-समान	तुम-करोगे	प्रतिदिन	सात	दिन	भोजन	अग्नि-बलि	सुगंध	सुखदायक	यहोवा-के-लिए
	H0428		H3117	H7651	H3117	H3899	H0801	H7381	H5207	H3068
	על-	עֹלֹת	הַתְּמִיד	יַעֲשֶׂה	וְנִסְכוֹ:					
	के-अतिरिक्त	होमबलि	नित्य-की	किया-जाएगा	और-अर्घ-इसका					
			H8548		H5262					

“उसी प्रकार तुम्हें सात दिन तक आग द्वारा भेंट देनी चाहिए और इसके साथ पेय भेंट भी देनी चाहिए। यह भेंट यहोवा के लिए मधुर गन्ध होगी। तुम्हें ये भेंटें होमबलि के अतिरिक्त देनी चाहिए जो तुम प्रतिदिन देते हो।

25	וּבַיּוֹם	הַשְּׁבִיעִי	מִקְרָא-	קֹדֶשׁ	יְהִי	לְכֶם	כֹּל-	מְלֶאכֶת	עֲבֹדָה	לא
	और-दिन-में	सातवें	पवित्र-सभा	पवित्र	होगी	तुम्हारे-लिए	कोई-भी	काम	सेवकाई-का	नहीं
	H3117	H7637	H4744	H6944	H1961	H3605	H3605	H4399	H5656	H3808
	ס	תַּעֲשׂוּ:								
	—	तुम-करोगे								

“तब फसह पर्व के सातवें दिन तुम एक विशेष बैठक बुलाओगे और उस दिन तुम कोई काम नहीं करोगे।

26	וּבַיּוֹם	הַבְּכוֹרִים	בְּהַקְרִיבְכֶם	מִנְחָה	חֻדְשָׁה	לְיְהוָה	בְּשִׁבְעַתְיֶכֶם	מִקְרָא-	קֹדֶשׁ
	और-दिन-में	पहले-फलों-के	जब-तुम-चढ़ाओ	अन्नबलि	नई	यहोवा-को	सप्ताहों-तुम्हारे-में	पवित्र-सभा	पवित्र
	H3117	H1061	H7126	H4503	H2319	H3068	H7620	H4744	H6944
	יְהִי	לְכֶם	כֹּל-	מְלֶאכֶת	עֲבֹדָה	לא	תַּעֲשׂוּ:		
	होगी	तुम्हारे-लिए	कोई-भी	काम	सेवकाई-का	नहीं	तुम-करोगे		
	H1961		H3605	H4399	H5656	H3808			

“प्रथम फल का पर्व या सप्ताहों के पर्व के समय तुम यहोवा के नये फसल की अन्नबलि दो। उस समय तुम्हें एक विशेष बैठक भी बुलानी चाहिए। तुम उस दिन कोई काम नहीं करोगे।

27	וְהִקְרַבְתֶּם	עֹלָה	לְרִיחַ	גִּיחַח	לְיְהוָה	בָּרִים	בְּנֵי-	בָּקָר	שְׁנַיִם	אֵיל	אֶחָד
	और-तुम-चढ़ाओगे	होमबलि	सुगंध-के-लिए	सुखदायक	यहोवा-को	बैल	पुत्र	गाय-के	दो	मेढ़ा	एक
	H7126		H7381	H5207	H3068	H6499		H1241	H8147	H0259	
	שָׁנָה:	בְּנֵי	כִּבְשִׁים	שָׁבְעָה							
	वर्ष-के	पुत्र	मेम्ने	सात							
	H8141		H3532	H7651							

तुम होमबलि चढ़ाओगे। वह बलि यहोवा के लिए सुगन्ध होगी। तुम दोष रहित दो साँड, एक मेढ़ा और एक वर्ष के सात मेमनों की भेंट चढ़ाओगे।

עֶשְׂרֵינָיִם	שְׁנַיִ	הָאֶחָד	לָפָר	עֶשְׂרֵינָיִם	שְׁלֹשָׁה	בְּשֶׁמֶן	בְּלוּלָה	סֵלֶת	וּמִנְחָתָם	28
दसवें-भाग	दो	एक-के	बैल-के-लिए	दसवें-भाग	तीन	तेल-में	मिला-हुआ	मैदा	और-अन्नबलि-इनकी	
H6241	H8147	H0259	H6499	H6241	H7969	H8081		H5560	H4503	

הָאֶחָד :
एक-के
מֵדֵה-לְעֵל
मेढ़े-के-लिए
[H0259](#)

तुम हर एक साँड के साथ जैतून के तेल के साथ मिले हुए छः क्वार्ट अच्छे आटे, हर एक मेढ़े के साथ चार क्वार्ट

הַכִּבְשִׁים:	לְשִׁבְעַת	הָאֶחָד	לְכֹבֵשׁ	עֶשְׂרֵינָיִם	עֶשְׂרֵינָיִם	29
मेम्नों-के	सात-के-लिए	एक-के	मेम्ने-के-लिए	दसवाँ-भाग	दसवाँ-भाग	
H3532	H7651	H0259	H3532	H6241	H6241	

और हर एक मेमने के साथ दो क्वार्ट आटे की भेंट चढ़ाओगे।

עֲלֵיכֶם:	לְכַפֵּר	אֶחָד	עֵימ	שְׂעִיר	30
तुम्हारे-लिए	प्रायश्चित-करने-को	एक	बकरियों-का	बकरा	
		H0259	H5795		

तुम्हें अपने पापों को ढकने के लिए एक बकरे की बलि चढ़ानी चाहिए।

וּנְסִיחָהּ:	לָכֶם	יְהִי-	תְּמִימָם	תַּעֲשֶׂוּ	וּמִנְחָתוֹ	הַתְּמִיד	עֹלֹת	מִלֶּבֶד	31
और-अर्घ-इनके	तुम्हारे-लिए	होंगे	निर्दोष	तुम-करोगे	और-अन्नबलि-इसकी	नित्य-की	होमबलि	के-अतिरिक्त	
H5262		H1961	H8549		H4503	H8548		H0905	

פ

तुम्हें यह भेंट प्रतिदिन होमबलि और इसकी अन्नबलि के अतिरिक्त चढ़ानी चाहिए। निश्चय कर लो कि जानवरों में कोई दोष न हो और यह निश्चय कर लो कि पेय भेंट ठीक है।